



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 1978/ चैत्र 1, 1900
No 145] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 1978/ CHAITRA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

घटिसूचना I

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1978

का० आ० 198(अ):—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम
(2) के अनुसरण में, निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनाएँ किया जाता है:—

प्रारूप 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए
निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	श्रीमद् प्रसाद ज्ञानवर्ती	4 बी, काप्रेष, प्रदर्शनी रोड, फ्लैट-5 बी, कलकत्ता-17
2.	श्रीमान् पांडक	वाई सं० 2, मुण्डा बरती, पो०आ० सोनोहा, जिला बाजिबिंग।

1	2	3
3.	कनक मुकर्जी	ब्लॉक नं० ए, कमरा नं० 7, 15-बेचुलाल रोड, कलकत्ता-14
4.	दिलीप कुमार बसु	सूट-30, करनानी एस्टेट, 209, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-17
5.	दीपेन्द्र लाल सेन गुप्त	14-गिरिश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-14
6.	जुगल किशोर मण्डल	64-कालीप्रसाद बैनर्जी लेन, हावड़ा-1
7.	सैयद शहीदुल्ला	34/1ई, ईलोअर रेंज, कलकत्ता-19
8.	सौरेंद्र भट्टाचार्य	50/1 सरत घोष गार्डन रोड (ग्राउन्ड फ्लोर) कलकत्ता-31

स्थान : विधान सभा भवन, कलकत्ता
 तारीख 18-3-1978

ह०/-अपठनीय
 रिटर्निंग आफीसर
 [सं० 318/प०ब०/78]
 श्री० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1978

S.O. 198 (E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information :—

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal.

Serial No.	Name of candidates	Address of candidate
1	2	3
1.	Anarprosad Chakraborty	4B, Congress Exhibition Road, Flat-5B, Calcutta-17.
2.	Ananda Pathak	Ward No. 2, Munda Basti, P.O.—Sonoda, Dist.—Darjeeling.
3.	Kanak Mukherjee	Block No. A, Room No. 7, 15 Bechulal Road, Calcutta-14.
4.	Dilip Kumar Basu	Suite-30, Karnani Estate, 209, Acharyya Jagdish Chandra Bose Road, Calcutta-17.
5.	Dwijendralal Sengupta	14, Girish Chandra Bose Road, Calcutta-14.
6.	Jugal Kishore Mondal	64, Kaliprosad Banerjee Lane, Howrah-1.
7.	Syed Shahedullah	34/1E, Lower Range, Calcutta-19.
8.	Sourendra Bhattacharjee	50/1, Sarat Ghosh Garden Road, (Ground Floor), Calcutta-31.

PLACE : Assembly House, Calcutta.
 Date : 18-3-1978

Sd/-Illegible
 (Returning Officer)
 [No. 318/WB/78]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.